

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(अष्टम् सत्र )

लिखित उत्तर हेतु प्रश्न

वीरवार, 27 फरवरी, 2020/8 फाल्गुन, 1941 (शक्)

[जल शक्ति मन्त्री - शहरी विकास मन्त्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री - उद्योग मन्त्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ].

कुल प्रश्न - 13

## पौध वितरण

816 श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर):

क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) डॉ० यशवन्त सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय नौणी से सेब के पौधे उत्तराखण्ड राज्य को किन कारणों से निर्यात किए गए और कितने पौधे निर्यात किए गए; और

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा कुल कितने पौधे प्रदेश के बागवानों को वितरित किए गए; कितने बागवानों ने पौधों की मांग की थी व प्रत्येक बागवान को किस-किस किस्म के कितने पौधे वितरित किए गए?

## बाल आश्रम कल्या

817 श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर):

क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि बाल आश्रम कल्या बन्द पड़ा है; यदि हां, तो कब से तथा इसे पुनः कब तक खोल दिया जाएगा?

## रिसर्च स्टेशन शारबो

818 श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर):

क्या **जल शक्ति मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष दिनांक 31.01.2020 तक बागवानी रिसर्च स्टेशन शारबो में कितने बागवानों के पौधों के leaf analyze किए गए; ब्यौरा बागवानों के नाम सहित दें?

----

## बीत सिंचाई योजना

819 श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली):

क्या **जल शक्ति मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि हरोली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत बीत क्षेत्र सिंचाई योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; क्या इसका कार्य पूर्ण कर लिया गया है; इस योजना से कौन-कौन से गांवों की कितनी भूमि सिंचित की जा रही है और किस-किस के खेत में हौदियां स्थापित की गई हैं; ब्यौरा दें?

----

## सीवरेज प्रोजेक्ट

820 श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली):

क्या **जल शक्ति मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि सरकार ने मण्डी, करसोग, पालमपुर, बिलासपुर व नाहन के लिए सीवरेज प्रोजेक्ट तैयार किया है; यदि हां, तो इसकी DPR तैयार कर ली गई है तथा कितनी धनराशि की है; और

(ख) क्या वित्त विभाग ने इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी है?

----

## पेंशन सुविधा

821 श्री हीरा लाल (करसोग):

क्या **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि गत 2 वर्षों में दिनांक 31.01.2020 तक करसोग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने बुजुर्गों को पेंशन सुविधा का लाभ मिला है; ब्यौरा नाम सहित दें ?

----

## Health and Wellness Centres

822 श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन):

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) प्रदेश में किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों को Health and Wellness Centres की मान्यता प्रदान की गई है; ब्यौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार दें; और

(ख) इन स्वास्थ्य संस्थानों में और क्या-क्या अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी?

----

### Vacancy Position

823 Sh. Nand Lal (Rampur):

Will the **Jal Shakti Minister** be pleased to state how many posts of different categories are lying vacant in Horticulture Department under Rampur Assembly Constituency and by when the vacant posts will be filled up?

----

### Vacancy Position

824 Sh. Nand Lal (Rampur):

Will the **Jal Shakti Minister** be pleased to state how many posts of different categories are lying vacant in Jal Shakti Vibhag under Rampur Assembly Constituency and by when the vacant posts will be filled up?

----

### पदपूर्ति

825 श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात):

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भटियात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं, ब्यौरा पदवार दें; इन्हें भरने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है?

----

## स्वास्थ्य केन्द्र बारतु

826 श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू):

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि उप-स्वास्थ्य केन्द्र बारतु (रन्टाड़ी) रोहडू का उन्नयन किया गया था; यदि हां, तो इस स्वास्थ्य केन्द्र ने कब से कार्य करना शुरू किया है; यदि नहीं, तो कारण?

----

### भवन निर्माण

827 श्री मोहन लाल ब्राक्टा (रोहडू):

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि आयुर्वेदिक औषधालय हरवाणी, तहसील चिड़गांव बन कर तैयार हो गई है; यदि हां, तो भवन निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा कितनी व्यय की गई थी; और

(ख) क्या विभाग इस भवन का उपयोग कर रहा है; ब्यौरा दें?

----

### जल जीवन मिशन

828 श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू) :

क्या जल शक्ति मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) जल शक्ति विभाग रोहडू वृत्त के अंतर्गत किन-किन पेयजल योजनाओं को जल-जीवन मिशन एवं ब्रिक्स में स्वीकृत किया गया है; ब्यौरा धनराशि सहित दें;

(ख) गत 2 वर्षों में दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक इस वृत्त के अन्तर्गत कौन-कौन सी NRDWP (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) योजनाएं थीं जिनकी निविदाएं धन के अभाव के कारण निरस्त (Cancel/terminate) की गईं; और

(ग) इन निरस्त की गई पेयजल योजनाओं के नाम, स्वीकृत धनराशि सहित मण्डलवार ब्यौरा दें?

----

शिमला: 171004.

दिनांक: 11 फरवरी, 2020 .

यशपाल शर्मा,

सचिव।

